

1. स्कूल या कॉलेज की वर्तमान या पुरानी ID साफ़ चेहरा, नाम, पता साफ होना चाहिए, दोनों के नहीं रहने पर अभिभावक का कोई भी id अपडेट करे यह अनिवार्य है
2. संपर्क के रूप में अभिभावक अपना नंबर प्रयोग करे अथवा स्वयं सम्पर्क करे ताकि आपके बच्चो की प्रगति आप तक सीधे पहुंच सके (केवल ग्रेड 3 -10 के लिए)
3. सारी प्रक्रिया सॉफ्टवेयर के द्वारा रिकॉर्ड की जा रही है, किसी भी तरह की कोई अवांछित व्यवहार अछम्य है और विधिक रूप से असम्मत भी |
4. हम अपने शिक्षण शुल्क से समझौता कर सकते हैं लेकिन अपने शिक्षकों सहयोगियों और सहपाठियों के साथ की गई टिप्पणी, सूचनाओं के हेरफेर या अन्य किसी माध्यम से असहज व्यवहार की स्थिति में कोई समझौता नहीं करेंगे अतः आपसे अनुरोध है, इस प्लेटफॉर्म का उपयोग अपने विकास में करें |
5. हम यहां पैसा बनाने के लिए नहीं है हमारी सारी प्रक्रियाएं पारदर्शी हैं तथा सूचना प्रौद्योगिकी के नियमों के अनुरूप है |
6. हम चाहे 5 विद्यार्थियों को पढ़ाएं अथवा 500 को, हम अपने गुणवत्ता और आदर्शों का अनुपालन हर हालत में करेंगे |
7. प्रत्येक विद्यार्थी को इस प्लेटफार्म से जुड़ने और कक्षाओं में शामिल होने के लिए अपने स्कूल का अथवा कोई अन्य आई कार्ड अपने प्रोफाइल पिक में लगाना अनिवार्य है |
8. व्यक्तिगत प्रयासों से स्थापित इस प्लेटफार्म के संसाधन सीमित हैं अतः इस सीमित संसाधन में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु हम भारत के विशिष्ट और उदार व्यक्तियों को समन्वित कर रहे हैं और विद्यार्थियों से यह उम्मीद रखते हैं कि वह इनका सदुपयोग करेंगे |
9. कक्षाओं में शामिल होने के लिए आपको पहले जॉइन ए जे स्टूडेंट का अनुरोध भेजना होगा और हमारे तरफ से भेजे गए मेल के बाद आपको माई अकाउंट सेक्शन में जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा तद अनुरूप आपको वेबसाइट एडमिन से आश्वस्त होने पर की आपके द्वारा दी गई सूचनाएं वैध हैं आपको अनुमति दी जाएगी |
10. प्रक्रियाएं जटिल हो सकती हैं लेकिन यह साफ-सुथरे और सदुपयोग कक्षाओं के लिए अति आवश्यक है |
11. किसी भी तरह की समस्या होने पर मेल अथवा वेबसाइट में बोट से सूचना हम तक भेजे |